



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

No. 64]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2003/माघ 21, 1924

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2003/MAGHA 21, 1924

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2003

सं. 24/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 98(अ).—अभिहित प्राधिकारी, कोरिया आर पी, थाइलैण्ड तथा इंडोनेशिया, में उदगमित या वहां से निर्यात किए गए प्योर टेरथैलिक एसिड (पीटीए) जिस पर की अधिसूचना सं. 13/98-सीमाशुल्क, तारीख 28 अप्रैल, 1998 तथा सं. 22/2000-सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2000, के अधीन प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया गया था, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 22 मई, 2002 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं. 14/9/2002-डीजीएडी के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरम्भ की है और समीक्षा के सम्पन्न होने तक, प्रतिपाटन शुल्क को और 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का आग्रह किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के तदेन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, प्रत्येक अधिसूचना का, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्राविष्टि में इंगित रीति से संशोधन किया जाएगा।

सारणी

| क्रम सं. | अधिसूचना सं. और तारीख | संशोधन |
|----------|---|---|
| 1. | 13/98-सीमाशुल्क, तारीख 28 अप्रैल, 1998 | उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, शब्दों एवं अंकों "20 फरवरी 2003" के स्थान पर शब्दों एवं अंकों "20 मई, 2003" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 2. | 22/2000-सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2000 | उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, शब्दों एवं अंकों "20 फरवरी 2003" के स्थान पर शब्दों एवं अंकों "20 मई, 2003" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। |

[फा. सं. 354/205/2002-टी.आर.यू.]

आलोक शुक्ला, उप सचिव

टिप्पण : (1) मूल अधिसूचना सं. 13/1998-सीमाशुल्क, तारीख 28 अप्रैल, 1998 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 223(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1998 द्वारा प्रकाशित हुई थी, और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 129/2002-सीमाशुल्क, तारीख 20 नवम्बर, 2002 [सा.का.नि. 773(अ) तारीख 20 नवम्बर, 2002] द्वारा किया गया था।

(2) मूल अधिसूचना सं. 99/2000-सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2000 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 598(अ), तारीख 11 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित हुई थी, और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 129/2002-सीमाशुल्क, तारीख 20 नवम्बर, 2002 [सा.का.नि. 773(अ) तारीख 20 नवम्बर, 2002] द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2003

No. 24/2003-CUSTOMS

G. S. R. 98(E).—Whereas the designated authority vide its notification No. 14/9/2002-DGAD published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 22nd May, 2002, has initiated review in the matter of continuation of anti-dumping duty on Pure Terephthalic Acid (PTA), originating in, or exported from, Korea RP, Thailand and Indonesia, imposed vide notifications of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/98-Customs, dated the 28th April, 1998 and No. 99/2000-Customs dated the 11th July, 2000, and has requested for extension of antidumping duty for a further period of three months, pending the completion of the review;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be amended, or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

| S. No. | Notification No. and date | Amendment |
|--------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 13/98-Customs, dated the 28th April, 1998 | In the said notification, in paragraph 2, for the words and figures "20th day of February, 2003", the words and figures "20th day of May, 2003" shall be substituted. |
| 2. | 99/2000-Customs, dated the 11th July, 2000 | In the said notification, in paragraph 2, for the words and figures "20th day of February, 2003", the words and figures "20th day of May, 2003" shall be substituted. |

[F.No. 354/205/2002-TRU]

ALOK SHUKLA, Dy. Secy.

Note:—(1) The principal notification No. 13/98-Customs, dated the 28th April, 1998 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 223(E), dated the 28th April, 1998 and was last amended by notification No. 129/2002-Customs dated the 20th November, 2002 [G.S.R. 773(E), dated the 20th November, 2002].

(2) The principal notification No. 99/2000-Customs, dated the 11th July, 2000 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 598(E), dated the 11th July, 2000 and was last amended by notification No. 129/2002-Customs dated the 20th November, 2002 [G.S.R. 773(E), dated the 20th November, 2002].